



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1946 (श0)
(सं0 पटना 162) पटना, मंगलवार, 4 मार्च 2025

सं० सं०: बी1-3-01(वेबकास्टिंग)/2025-775
निर्वाचन विभाग

संकल्प
3 मार्च 2025

विषय :- बिहार राज्य के लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग एवं अन्य कार्य के लिए निविदा से चयनित एजेंसी द्वारा आगामी विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए कुल मतदान केन्द्र संख्या 38,948 (50%) पर स्वीकृत दर रु0 7,700/- (मानवबल सहित) पर वेबकास्टिंग किये जाने पर सभी करों सहित रु0 35,66,73,408/- (पैंतीस करोड़ छियासठ लाख तिहत्तर हजार चार सौ आठ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-464/आई0एन0एस0टी0/2022 /ई0पी0एस0 दिनांक 19.06.2023 के आलोक में राज्य के न्यूनतम 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग किये जाने का प्रस्ताव है। मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग द्वारा मतदान के दरमियान की जा रही कार्रवाई एवं घटित होने वाले घटनाओं का अनुश्रवण निर्वाची पदाधिकारी स्तर/ जिलास्तर एवं मुख्यालय स्तर से की जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सहायता प्राप्त होगी तथा विधि व्यवस्था के संधारण में भी किसी तरह की कठिनाई होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।

2. राज्य के मतदान केन्द्रों से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0	कार्य के प्रकार	अनुमानित संख्या
1	मतदान केन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग	38948

3. यह कार्य विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित्त किया जाना है, जिस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। प्रस्तावित कार्य का दर लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 में ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

क्र०	कार्य के प्रकार	दर	कुल राशि
1(i)	मतदान केन्द्रों से लाईव वेबकास्टिंग	रु० 6050	रु० 23,56,35,400 /—
1(ii)	मानव बल (मतदान केन्द्र)	रु० 1650	रु० 6,42,64,200 /—
	मानव बल (निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर)	रु० 6500	रु० 15,79,500 /— रु० 7,41,000 /— रु० 45,500 /—
1(iii)	GST की राशि (18%)		रु० 5,44,07,808 /—
कुल योग—			रु० 35,66,73,408 /—

4. विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर राज्य के लगभग 38948 मतदान केन्द्रों/स्थलों से मतदान के दिन वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी कार्य किया जायेगा। उक्त कार्य पर होने वाले व्यय मांग संख्या-06, मुख्य शीर्ष-2015, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-राज्य विधान सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय, एवं विपत्र कोड 06-2015001060001 से विकलनीय होगा।

5. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बिहार राज्य के लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग एवं अन्य कार्य के लिए निविदा से चयनित एजेंसी द्वारा आगामी विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए कुल मतदान केन्द्र संख्या 38,948 (50%) पर स्वीकृत दर रु० 7,700 /— (मानवबल सहित) पर वेबकास्टिंग किये जाने पर सभी करों सहित रु० 35,66,73,408 /— (पैंतीस करोड़ छियासठ लाख तिहत्तर हजार चार सौ आठ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2025 में मद संख्या-16 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
—सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 162-571+10-डी०टी०पी० ।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>